

The logo for VNR, consisting of the letters 'VNR' in a stylized, green, outlined font.

# Impact

Volume -06, October - December 2016



# Chayan

**VNR CROP SHOW**

## IN THIS ISSUE

Management Message | Editorial Speaks |  
Knowledge Zone | Events@VNR | Training | VNRites Zone | Nursery | Media @ VNR

## Message From Management



**Dr. Krishan Chandra Upadhyay**

Head R & D

During the last one decade our growth has been phenomenal, surpassing the industry growth rate by a great margin. We were able to reach this height because we believe “Sky is the limit.” Our core values as a company and focused approach towards our mission ‘किसानों के हित में’ played a vital role in achieving this growth...

Every single person associated with VNR has passionately contributed his/her best and that has made us a model seed company. Our company is now inspiration to many.

Our industry like all other industries is driven by innovation and technology adoption. As new products are introduced every year in to the market, novelty and speed of technology delivery has become essential to retain any lead in the market place. Innovation for novelty and processes is will be one of the key traits in further boosting our growth to new heights.

I believe every one of us has been innovating to some extent in their own sphere of work and improving efficiency which has to be retained and improved.

The researchers have to innovate new competitive products at a faster pace, the product development experts need to innovate processes to test with utmost precision while expanding their arena of operation, the supply chain Samurai’s need to innovate in increasing production of pure sellable seeds at lesser inputs, the Business Gurus need to innovate on strategies for existing and future markets and the support functions/Back office champions need to innovate on processes and systems that facilitate and increase efficiency .

So let us cultivate a sense of innovation for novelty and efficiency in whatever we do. Finally, wishing all our teams, associates and families a very happy new year 2017, may it bring Joy, happiness, peace, prosperity and may god bless our endeavors !



### WISH YOU ALL A HAPPY & PROSPEROUS NEW YEAR

It gives us immense pleasure to share that our Chairman, Dr. Narayan Chawda, has been adorned with “Honorary Fellowship” by Indian Institute of Horticulture in the 7th Indian Horticulture Congress 2016. He was honoured for his contribution towards new technologies in the field of Agriculture and Farming. The VNR leadership team participated in the 23rd Asian Seed Congress, organised by The Asia & Pacific Seed Association, held at Incheon, South Korea.

Our company organised “Chayan” the crop show at Abhanpur (C.G) from 13th to 24th Oct-2016, where a huge portfolio of our varieties was displayed in a well planned area. The product specifications and detailed description were provided to the visitors in the program. Do visit these page no.6 to 9 for more details. Diwali was celebrated with great enthusiasm at the Corporate Centre. The Diwali Pooja was performed on this auspicious day to worship goddess Lakshmi for peace, wealth and prosperity. Do visit the employee corner to know the great achievements of kids! We extend our heartfelt thanks to all contributors and readers for their continuous support! Enjoy the journey, keep contributing your articles and give your feedback and suggestions at [vnrmagazine@gmail.com](mailto:vnrmagazine@gmail.com).

Happy Reading!!!  
EDITORIAL TEAM



## Knowledge Zone

In our last volume we have shared you some of chilli's common disease here are some more :

### 1. ALTERNARIA LEAF SPOT

Caused by : *Alternaria solani*

#### DIAGNOSIS:

- \* Spots on leaves and fruits; more prominent on the fruits.
- \* The spots are circular to irregular with dark brown to black concentric circles.
- \* On fruits, the spots are covered with black spore masses in concentric circles.



Variety : VNR - 940 - 14

### 2. POWDERY MILDEW

Caused by: *Leveillula Taurica*

Powdery mildew causing heavy yield loss ranging from 14 to 20 percent, Due to severe defoliation and reduction in photosynthesis, size and number of fruits per plant . This disease is very common from November to February.

#### DIAGNOSIS:

- White powdery coating appears mostly on the lower surface
- Sometimes the powdery coating can also be seen on the upper surface.
- Correspondingly on the upper surface yellow patches are seen
- Severe infection results in the drying and shedding of affected leaves.
- Powdery growth can also be seen on young fruits, and branches.
- Diseased fruits do not grow further and may drop down.



ALTERNARIA LEAF SPOT

Source: [www.pestnet.org](http://www.pestnet.org)



POWDERY MILDEW

Source: [www.infonet.org/planthealth](http://www.infonet.org/planthealth)



POWDERY MILDEW

Source: [www.mydreamgarden.in](http://www.mydreamgarden.in)

## Knowledge Zone

### 3. ANTHRACNOSE

**Caused by :** *Colletotrichum Capsici* and *C. Gloeosporioides*

#### DIAGNOSIS:

- Typically, symptoms first appear on mature fruits as small, water-soaked, sunken. The lesions may increase to 3-4 cm in diameter on large fruit.
- Pale buff to salmon spore masses occur scattered or in concentric rings on the lesions.
- Infected fruits drop off prematurely.
- Black, minute spots develop on infected seeds.
- Fungus may also attack the fruit stalk and spread along the stem causing dieback symptoms.

#### Primary Source of Inoculums:

Infected seeds and diseased crop debris

#### Secondary Source of Inoculums:

Conidia dispersed by rain splash and wind. It also infects Tomato, Potato, Brinjal

#### Favourable Condition:

28-32 degree C and RH > 80%



Variety : VNR - 924 - 14



**ANTHRACNOSE**

Source: [www.avrdc.org](http://www.avrdc.org)



**ANTHRACNOSE**

Source : [www.hortomallas.com](http://www.hortomallas.com)

### 4. CHOANEPHORA BLIGHT

**Caused by :** *Choanephora Cucurbitarium*

#### DIAGNOSIS

- \* Choanephora blight causes great damage to the crop during the rainy season.
- \* Flowers turn brown to black and then rot.
- \* Rot spreads downward rapidly, affecting buds and tender leaves.
- \* Infected tissue turns brown to black and the fungus grows rapidly downward, killing.
- \* off portions of the upper plant.
- \* The bark easily peels off in shreds.
- \* Wet rot develops on affected parts. Infected parts of the stem appear wet and green.



**CHOANEPHORA BLIGHT**

Source: [www.ppqg.gov.in](http://www.ppqg.gov.in)

to be continued.....

## Events

### VNR Crop Show - Chayan 2016

The first ever, Crop Show named as “Chayan” 2016 was successfully organised by VNR in Raipur (C.G) near Abhanpur (C.G) from 13 October 2016 to 24 October 2016. In this crop show, approximately, 340 varieties were showcased in an area spread over 15 acres. The crops which were showcased included Gourds are (Bitter gourd, Bottle gourd, Sponge gourd, Ridge gourd, Ash gourd, Pumpkin, Round gourd and Snake gourd), Okra, Tomatoes, Hot Pepper, Sweet Pepper and Brinjal, Water Melon, Cowpea, Dolichos, Radish, Cucumber etc.



Additionally hybrid paddy and hybrid maize varieties were also on display in other location. The objective of the crop show was to demonstrate the leading commercial hybrids of VNR and also to showcase the promising pipeline varieties to the channel partners, bulk partners and leading farmers. This crop show gave the visitors a chance to observe, evaluate, compare and select suitable varieties from VNR portfolio for their respective areas. Approximately 1000 channel partners of VNR from all over the country visited the crop show. It was also visited by 700 progressive farmers from central India.

Importers from other countries like Srilanka and Egypt also participated in the event. In addition to this, the event covered a tour to the production and processing facilities followed by distributor's meet with all the channel partners in Raipur. Many channel partners were on their first visit to VNR Seeds, Raipur and they were completely mesmerised to see the world class research, production and processing facilities of VNR. The crop show was successfully planned and executed by the volunteers under the guidance of the organising team. It was the sheer hard work and dedication of the team which made the event a grand success in the seed industry.



## Events

### We are thankful to the Chayan Volunteer's Team!

- |                                    |                                      |                                   |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Mr. Pradeep Tiwari, Marketing   | 15. Mr. Kush Dutt Rawat, Production  | 29. Mr. Manish Kumar, R&D         |
| 2. Mr. Rahul Kumar Sahu, Marketing | 16. Mr. A.P. Singh, Legal            | 30. Mr. Rakesh Pal, R&D           |
| 3. Mr. Priyabrata Dash, Marketing  | 17. Mr. Rahul Dhiwar, Nursery        | 31. Mr. Sandeep Kumar, R&D        |
| 4. Mr. Amir Khan, Sales            | 18. Mr. Bhuvnesh Patel, Finance      | 32. Mr. Sevak Ram Verma, R&D      |
| 5. Dr. Ashok Gupta, Sales          | 19. Mr. Roopam Johri, HR             | 33. Mr. Vishwanath Girase, R&D    |
| 6. Mr. Sachin Kumar, Sales         | 20. Mr. Vipin Sharma, Admin          | 34. Ms. Pooja Rawat, R&D          |
| 7. Mr. Dinesh Swami, Sales         | 21. Mr. Dushyant Sahu, Finance       | 35. Mr. Jagdeep Kumar, Processing |
| 8. Mr. Srinivas Swami, Sales       | 22. Mr. Gourav Rathod, Finance       | 36. Mr. Puran Sahu, Farm          |
| 9. Mr. Akhilesh Singh, Sales       | 23. Mr. Gautam Chandrakar, Logistics | 37. Mr. Ganga Ram, Farm           |
| 10. Mr. Amit Kumar, Sales          | 24. Mr. Santosh Lukhey, Logistics    | 38. Dr. Vipin Chandra Joshi, QA   |
| 11. Mr. Pavan Kumar, Sales         | 25. Mr. Anand Kusre, Logistics       | 39. Mr. Bhushan Kharkar, QA       |
| 12. Mr. Rajeev Ranjan, Sales       | 26. Mr. Sushil Sahu, Logistics       | 40. Mr. Brijesh Gupta, QA         |
| 13. Mr. Vaibhav Verma, Sales       | 27. Mr. Dinanath Singh, R & D        |                                   |
| 14. Mr. Sudeep Rana, PD            | 28. Mr. Deepankar Sarkar, R&D        |                                   |



## Events





## Testimonials for Chayan "VNR Crop Show"

"This is the first time any company took us through their R&D plots, whereas all others limit is up to the processing units only. This immensely inculcated a sense of trust and belief in the company and various products., we came across some really promising hybrids especially in chilli and corn which might prove to be very differentiating from competitors."

**Amit Yadav, Krishna Beej Bhandar, Aliganj, Etah (UP)**

पिछले अक्टूबर माह में कंपनी के चयन कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला जिसमें हमारे क्षेत्र के डीलर और वितरक एवं अग्रणी किसान बंधु शामिल हुए। चयन एक साथ सभी फसलों का एक ही स्थान पर देखना मुझे आश्चर्यचकित कर गया लगभग 300 से ज्यादा किस्मों का चयन करने का मौका मिला। वहां हमें सब्जियों की कई किस्में जैसे कि मिर्च, टमाटर, बैंगन, गिलकी, लौकी, करेला, तुरई, टिंडा, कद्दू, म्वाए एवं बरबट्टी इत्यादि कई सब्जियों का चयन हमारे क्षेत्र में प्रचलित सिग्मेन्ट के अनुरूप करने का मौका मिला। इसी प्रकार फील्ड क्रॉप में भी मक्का बाजरा व धान की कई किस्में देखने का मौका मिला, मैं आज तक कई फिल्ड प्रोग्राम में उपस्थित हुआ, कई ट्रायल फॉर्म देखें छोटी से लेकर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों अपनी किस्मों के साथ साथ प्रतियोगी कंपनियों के उत्पाद दिखाती है किन्तु यह अनुभव एकदम अलग वह अद्भूत था। आशा करता हूँ इसी प्रकार कंपनी चयन प्रोग्राम व अन्य गतिविधियों में हमें शामिल करती रहेगी ताकि हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता रहे।

**जितेन्द्र कुमार जैन, जैन बीज भण्डार, इंदौर**

We appreciate VNR for their efforts to organize this open day successfully inspite of heavy rains. Their focus on vegetables specifically hotpepper, gourds, eggplant and field crops like hybrid paddy, corn and bajra. Wide range of hybrids suitable for different segment in each crop with compatible performance will take the company to greater heights in future. Infrastructure like warehouse, conditioning plant, quality assurance lab, in house production facilities, etc are more than multinational standards. Hospitality of the sales team during this open day deserves high appreciation. We are very proud to be the channel partner for this growing company.

**A.Nagarajan, Evergreen Hybrid Seeds, Villupuram, Tamil Nadu**

मेरा नाम भीम गोरई है। मैं जिला - बोकारो (झारखण्ड) का निवासी हूँ। मैं VNR कंपनी द्वारा आयोजित प्रोग्राम VNR चयन में 22 Oct को रायपुर में कंपनी का R&D भ्रमण किया। मैंने जीवन में पहली बार VNR कंपनी के सारे मुख्य किस्मों को एक साथ देखा एवं अवलोकन भी किया। मैंने कंपनी की नयी टेक्नोलोजी एवं Seed Packing Processing Plant को भी देखा। वास्तव में आज VNR SEED PVT LTD उन कंपनीयों में से है जो नयी किस्मों को भारत में लाने का प्रयास कर रही है। मुझे VNR कंपनी द्वारा आयोजित प्रोग्राम VNR चयन बहुत ही अच्छा लगा।

**श्री भीम गोरई, जोधाडीह मोड, चौक बोकारो (झारखण्ड)**

The crop tour at Raipur was a vast and elegant experience. I had visited Raipur many times but this tour was a memorable one. We have seen how wonderfully the modern technology was used in all crops (Vegetable and Field crop) at a time. The comparison between market crops with new selected crop was simply amazing. In this tour we have selected most long time disease tolerance and new varieties of product which will be a new revolution in future.

**Rajeev D, Seedworld, Hyderabad**


## Events

### Dr. Narayan Chawda (Chairman, VNR Seeds) awarded with Fellowship

It is a rare honor and privilege for our company as our Honorable Chairman, Krishi Pandit Dr. Narayan Chawda, was conferred with prestigious "Honorary Fellowship" of Horticultural Society of India on November 15 2016 at B.P. Pal Auditorium, IARI, Pusa Campus, New Delhi during 7th Indian Horticultural Congress. This award was given away by Shri. S.S. Ahluwalia, Hon'ble Minister of State for Agriculture and Farmers welfare. During this event, Dr. Narayan Chawda delivered a lecture and presentation on "VEGETABLE GRAFTING FOR HIGH PRODUCTIVITY AND PROFITABILITY OF VEGETABLE CROPS". More than 700 delegates including Agricultural Scientists and renowned farmers across different parts of India were present in this event.



VNR team participated in the 23rd Asian Seed Congress, 2016 at Incheon, South Korea, in November 2016 conducted by Asia and Pacific Seed Association (APSA). APSA was established in 1994, through the cooperation of the Food and Agriculture Organization (FAO) and DANIDA, with the aim of promoting quality seed production and marketing in the Asia and Pacific Region. Today, APSA is the largest regional seed association in the world.



**किसानसम्मेलन**  
**“नोटबंदी की वजह से किसानों में होने**  
**वाली परेशानियाँ एवं उसके उपाय”**  
**@ 15 नवम्बर 2016**  
**कुम्हारी, दुर्ग (छ.ग.)**

देश में नोटबंदी से अन्य क्षेत्रों के साथ - साथ कृषि जगत भी अछुता नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील युवा किसान संघ के द्वारा इस विषय को लेकर एक किसान सम्मेलन दिनांक 15-11-2016 को ग्राम खपरी, कुम्हारी, जिला-दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित किया गया।

उक्त सम्मेलन में श्री अरविन्द अग्रवाल (डायरेक्टर, व्ही.एन.आर. सीड्स) को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। श्री अरविन्द अग्रवाल के द्वारा किसानों को नोटबंदी से हो ने वाली परेशानियाँ एवं उससे निजात पाने के सरल उपायों से अवगत कराया गया। इस अवसर पर संघ के सदस्यों के द्वारा श्री अरविन्द अग्रवाल को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया।



**Lime Stone Cricket Match sponsored by VNR Seeds**

10th Lime Stone Cricket Match was organized by Nandani Sports & Cultural Development Association on 24th December 2016 at Ahiwara, C.G. in the presence of Mr. M.K. Barman, ED,P&A (BSP) & Mrs. Manjulata Yadav (President Municipal Party Corporation, Ahiwara,CG). VNR was one of the sponsors of this event and also participated in the match.

## Training

VNR organized a team of four members to visit Thailand during September – October 2016 to attend the training on vegetables (seeds to harvest) from World Vegetable Centre at Kasetsart University Campus, Kamphaeng Sean. The motive of these team members was to learn the technique from the world's best scientists who are pioneer in their respective subject and to implement it in India.



**Seed Harvest Training @ The World Vegetable Center, Thailand**

### Training on 5S: Batch II @Corporate Center, Raipur (CG)

The second batch training program on 5S was conducted by ANM Consultants on 8 October 2016 at Raipur. The trainers, Mr. Praneet Surti and Mr. Devesh Thakur delivered the training 5S, is abbreviated from the Japanese word, Seiro (Sort), Seiton (Systematize), Seiso (Sweep), Seiketsu (Standardize) and Shitsuke (Self- Discipline).

It aims at spontaneous and continuous improvement of working environment and working conditions. 5S is not only to be used at workplace but it can be used in every aspect of human life.

A better, systematic, organized and disciplined work culture always ensures success.

The objective of this training program was to make the participants aware of the work place discipline and ways to organize the work space to gain efficiency and effectiveness.

All the participants enjoyed the training session and actively took part in the training activities and games.



VNRities Zone



Proud Parents

The 'Modern Art Painting' by Shruti Sati (Rungta Public School, Bhilai) daughter of Mr. S.C. Sati (QA) was published in Kloud 9 magazine in November 2016 issue. We wish the talented star a bright future in this field.

Kshitij Karkun (Delhi Public School, Bhilai) son of Mr. Manish Karkun (Finance) has got first price in the junior boys (under 14) shot put in Interschool athletics Competition. Best wishes to the budding champion.

Horrifying Incident----- Value your life

"A horrifying incident took place on 9 October 2016. I was having a gala time with my family in a river, in Medak district. We were enjoying and bathing in the river. We were capturing the moments in the camera. But we were not aware that the river was too deep. While clicking the pictures, suddenly my wife and I started drowning into the deep water. I was stuck and I was trying hard to save myself but all in vain. All the members of my family were trying to save me but they were also getting into danger. My wife tried her best but she failed to help me. Finally, my elder son came to the spot and wisely judged the distance from bank to deeper spot, he pulled my wife and myself by force and finally we were able to come out. Today we are alive due to my elder son, Sumant. He has given REBIRTH to us. May god bless him!"

Learning :

We should be careful while having adventure near rivers, mountains or hills for the unseen dangers lurking nearby . Life is precious and we should value it.

Contributed By : Mr. P. Srinivas Swami, Sales



Click by Pooja Rawat, R & D @ Kohadia Farm



## Nursery

**This quarter has been a dynamic quarter for VNR Nursery; who participated in 10 exhibitions between Oct-Dec 2016.**

**These exhibitions are as follows;**

1. Kisan Mela, pantnagar (UK)
2. GRAM -2016 , Jaipur (RJ)
3. Agro Tech & Business Fair , Chandigarh (PB)
4. Krishithon -2016 , Nasik (MH)
5. Agrovision -2016, Nagpur (MH)
6. Krushimela , Mandya (KN)
7. Krishi Unnayan Mela -2016, Burdwan (WB)
8. Chhattisgarh Kisan Mela -2016, Jagdalpur (CG)
9. AP Tech -Guntur (AP)
10. Maha Agro -2016, Aurangabad (MH)

Out of these, 7 exhibitions were such where VNR Nursery participated for the first time and explored the potential of that region. Also, VNR Nursery booth got the first price in Kisan Mela, Pant Nagar, Uttarakhand.



### वीएनआर बीही विश्व का सबसे बड़ा अमरूद

धन सिंह बिष्ट  
कटपूर।



पंतनगर विरधविद्यालय ने चार दिवसीय किसान मेले में जहां जल्दा बीजों और पौधों की भरमार रही थी। विरध का सबसे बड़ा अमरूद भी मेले में छाया रहा। जर्नीसगढ़ के रायपुर में उत्पादित किए जाने वाले वीएनआर बीही नाम के इस अमरूद का वजन डेढ़ किलो से भी अधिक है। वर्तमान में देश में 20 राज्यों की नर्सरी में इसकी पौध तैयार की जा रही है। पंतनगर विरध के साइबोटिगिशन डिस्ट्रिक्ट में भी इस अमरूद के तीन सौ पौध लगाए गए हैं, जिन पर अब फल लगने लगे हैं। पौध उत्पादन करने वाली फर्म जल्द ही इसे पैकेट करने की योजना बना रही है।

पंतनगर मेले में अमरूद के प्रचार के लिए धनुषे सोरनगर नर्सरी प्रोड्यूसर्स लिमिटेड के मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव अरुण सक्सेन बताते हैं कि अमरूद का वजन 300 ग्राम से एक किलो तक हो सकता है और कभी इससे अधिक वजन का फल भी पैक पर निकल आता है। पूरे विश्व में इतने वजन का अमरूद कहीं और नहीं होता। इसके साथ ही इसमें बीज की संख्या बहुत कम होती है। कम पानी और अधिक नमी वाले स्थानों पर भी इसका उत्पादन हो जाता है।

### OMG : उत्तराखंड में है दुनिया का सबसे बड़ा अमरूद

Paritosh October 21, 2016



दोहरादून। उत्तराखंड में इन दिनों चार दिवसीय किसान मेला चल रहा है। इस मेले में बीजों और पौधों की भरमार लगी रही। जहाँ इस मेले में दुनिया का सबसे बड़ा अमरूद मेले में छाया रहा। ये मेला उदित के इंदरपुर पिनत पंतनगर विरधविद्यालय में लगा हुआ है।

किसान मेला में अणु वीएनआर बीही नाम का अमरूद

उत्तरीसगढ़ के रायपुर में उत्पादित किए जाने वाले वीएनआर बीही नाम के इस अमरूद का वजन डेढ़ किलो से भी अधिक है। वर्तमान में देश में 20 राज्यों की नर्सरी में इसकी पौध तैयार की जा रही है।

पंतनगर विरध के साइबोटिगिशन डिस्ट्रिक्ट में भी इस अमरूद के तीन सौ पौध लगाए गए हैं, जिन पर अब फल लगने लगे हैं। पौध उत्पादन करने वाली फर्म जल्द ही इसे पैकेट करने की योजना बना रही है।

पंतनगर मेले में अमरूद के प्रचार के लिए धनुषे सोरनगर नर्सरी के मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव अरुण सक्सेन बताते हैं कि अमरूद का वजन 300 ग्राम से एक किलो तक होता है और कभी इससे अधिक वजन का फल भी पैक पर निकल आता है। पूरे विश्व में इतने वजन का अमरूद कहीं और नहीं होता।

### देश-विदेश



उत्तराखंड के पंतनगर विरधविद्यालय में किसान मेले के दौरान विरध के सबसे बड़े अमरूद का प्रदर्शन किया गया। जर्नीसगढ़ के रायपुर में उत्पादित किए जाने वाले वीएनआर बीही नाम के इस अमरूद का वजन डेढ़ किलो से भी अधिक है।

## डॉ. नारायण चावड़ा को मिला फेलोशिप अवॉर्ड

सिटी रिपोर्टर • राजधानी से लगे ग्राम गोमची में मॉडर्न तरीके से खेती करने वाले प्रोग्रेसिव फॉर्मर डॉ. नारायण चावड़ा को हार्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा फेलोशिप अवार्ड 2016 से सम्मानित किया गया है। वह सम्मान पिछले दिनों दिल्ली में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एस्एम अहलवालिया ने दिए। डॉ. चावड़ा पिछले दो दशक से एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर में कई इन्वैशन किए हैं। वेजीटेबल के नए सीड डेवलप किया है। आसपास के गांवों के किसानों को खेती और मिंचाई की नई पद्धतियां भी बताते हैं। डॉ. चावड़ा पिछले साल पंडित रविशंकर शुक्ल विवि से पीएचडी किए हैं।



## लाइम स्टोन क्रिकेट शुरू

हरिद्वार, हरिद्वार अधिका

श्रीमती शोम एवं प्रेमकुमार किसान विवि द्वारा आयोजित महिला लाइम स्टोन का क्रिकेट प्रतियोगिता का 24 दिवस का शुभारंभ किया गया।

प्रतियोगिता के 10 वें वर्ष के प्रारंभिक मैच में श्री एम आर वी क्रीडम ने जेके लक्ष्मी विवेक कंगनी ने टॉन क्रीडम पारने कलेकत्री कर्तो हुए सभी विजेत खेलेन 25 पर बनाए। मिसे वेंके लक्ष्मी को टीम में कप्तान 4 अंकों में बनकर मैच जीत लिया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एम.के. शर्मा (सीटी रिपोर्टर)

पिछले साल पारने व शोमनी मंगुलता शोम अवकाश न.च. परिषद अधिका की अध्यक्ष में संभव हुआ। अधिका अधिका के नए में कामी अनुपम नगर (सी.एच.ए.ए.ए.ए.) बी.एल.के.बी.टी.जी. जलम नगर (डी.डी.ए.ए.) महिला खेलेन के बीच राजकुमार कुमुद (प्रबोधक, वीएनआर सोरनगर), विरध शुक्ल (एच.आर.के.के.सी.ए.टी.), शोमनी अरुण देवगुप्त पारने, शोमनी मीन कालु पारने अधिका) उपस्थित को उपस्थित हरिद्वार के अध्यक्ष जगजित सिंह, उपस्थित स्टालिन सायुकेल, व महासचिव विन्नु कालु ने बताया कि 1 सप्ताह नए मैच खेल करनी इस प्रतियोगिता में प्रदर्श के उत्कलित टीमें के बीच फेब्रुअरी, नगर, विरधरापुर व महिला को टीम भी खिला सं रही है।



## पॉजीटिव इंडिया

Illustrated National Monthly Of General & Medical News Analysis

2



### वी.एन.आर. सीड्स का देश की सुराहाली में महत्वपूर्ण योगदान

भारत की सुराहाली व हरियाली में हाइटेक व साइंटिफिक खेती का सबसे अहम रोल है। वी.एन.आर. सीड ने इस सुराहाली की ओर अपना पहला कदम कड़ा दिया है। वी.एन.आर. के डायरेक्टर अरविंद अग्रवाल का कहना है कि सही बीजों का चयन ही सुराहाली की ओर पहला कदम है। वी.एन.आर. सीड्स इस सुराहाली को बांटने के लिये कुलसंकेतित है।

विश्व की 150 से अधिक वैरायटी, 14 वैरायटियों के साथ करेला, कटु की 5 वैरायटी, भिंडी 4 वैरायटी, बैंगन की 28 वैरायटी और वीएनआर ओरी के कच कड़ने। फल का वजन 300 से 1000 ग्राम, पूरे वर्ष फसल संभव क्षमता, कम पानी व अधिक नमी के स्थानों पर भी संभव। वी.एन.आर. बीही को प्रस्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के कृषि मंत्री राधामोहन सिंह, विरध गडकरी, तेलंगाणा के मुख्यमंत्री सीएस राय, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बाबल व गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन देलाल पर चुकी हैं।





## FARMER'S SUCCESS STORIES

### Farmer : Mr. Akhilesh Pal

Place	Amla Chhindwara (M.P.)
Crop Name	Tomato
Variety	3348
Area	0.5 Acre
Sowing Time	Jan - 16
Row to row distance	2.5 Feet
Plant to plant distance	2.5 Feet
Harvesting Time	20-21 Picking
Total Production	31200 Kg
Total Profit	Rs. 146000/-
Total Expenses	Rs. 40000/-

### Farmer : Mr. Sanpat G. Doiphode

Place	Chhindwara (M.P.)
Crop Name	Bitter Guard
Variety	Navdhar
Area	0.5 Acre
Sowing Time	May - 14
Row to row distance	5 Feet
Plant to plant distance	2 Feet
Harvesting Time	39-40 Picking
Total Production	12000 - 13000 Kg
Total Profit	Rs. 325000/-
Total Expenses	Rs. 175000/-

### Farmer : Mr. Anil Katole

Place	Chhindwara (M.P.)
Crop Name	Chilli
Variety	728
Area	0.5 Acre
Sowing Time	Dec - 15
Row to row distance	3 Feet
Plant to plant distance	1 Feet
Harvesting Time	8-9 Picking
Total Production	6480 Kg
Total Profit	Rs. 166000/-
Total Expenses	Rs. 33000/-

### Farmer : Mr. Ganesh Vishwakarma

Place	Chhindwara (M.P.)
Crop Name	Chilli
Variety	145
Area	0.5 Acre
Sowing Time	Feb - 16
Row to row distance	3 Feet
Plant to plant distance	1 Feet
Harvesting Time	10-11 Picking
Total Production	15000 - 16000 Kg
Total Profit	Rs. 400000/-
Total Expenses	Rs. 115000/-